



Abinav



Sahivani

Model: Horoscope-Matching

Order No: 120968701


पुल्लिंग :	लिंग	: स्त्रीलिंग
28/03/1989 :	जन्म तिथि	: 03/03/1990
मंगलवार :	दिन	: शनिवार
घंटे 22:25:00 :	जन्म समय	: 22:22:00 घंटे
घटी 40:14:50 :	जन्म समय(घटी)	: 38:47:58 घटी
India :	देश	: India
Kangra :	स्थान	: Dharmsala
32:04:00 उत्तर :	अक्षांश	: 32:14:00 उत्तर
76:16:00 पूर्व :	रेखांश	: 76:24:00 पूर्व
82:30:00 पूर्व :	मध्य रेखांश	: 82:30:00 पूर्व
घंटे -00:24:56 :	स्थानिक संस्कार	: -00:24:24 घंटे
घंटे 00:00:00 :	ग्रीष्म संस्कार	: 00:00:00 घंटे
06:19:04 :	सूर्योदय	: 06:50:23
18:41:35 :	सूर्यास्त	: 18:22:56
23:42:31 :	चित्रपक्षीय अयनांश	: 23:43:24
वृश्चिक :	लग्न	: तुला
मंगल :	लग्न लग्नाधिपति	: शुक्र
वृश्चिक :	राशि	: वृष
मंगल :	राशि-स्वामी	: शुक्र
ज्येष्ठा :	नक्षत्र	: रोहिणी
बुध :	नक्षत्र स्वामी	: चन्द्र
3 :	चरण	: 2
व्यतिपात :	योग	: विष्कुम्भ
वणिज :	करण	: विष्टि
यी-यीशू :	जन्म नामाक्षर	: वा-वाणी
मेष :	सूर्य राशि(पाश्चात्य)	: मीन
विप्र :	वर्ण	: वैश्य
कीटक :	वश्य	: चतुष्पाद
मृग :	योनि	: सर्प
राक्षस :	गण	: मनुष्य
आद्य :	नाड़ी	: अन्त्य
मृग :	वर्ग	: मृग

## ग्रह अंश एवं विंशोत्तरी

विंशोत्तरी	अंश	राशि	ग्रह	राशि	अंश	विंशोत्तरी
बुध 7वर्ष 10मा 1दि	02:06:32	वृश्चि	लग्न	तुला	10:45:51	चन्द्र 6वर्ष 11मा 1दि
सूर्य	14:16:36	मीन	सूर्य	कुंभ	19:07:43	गुरु
28/01/2024	23:51:14	वृश्चि	चंद्र	वृष	14:06:18	03/02/2022
28/01/2030	16:53:07	वृष	मंगल	मक	00:24:10	03/02/2038
सूर्य	07:22:54	मीन	बुध	कुंभ	06:15:01	गुरु
17/05/2024	09:09:17	वृष	गुरु	मिथु	07:09:51	23/03/2024
चन्द्र	12:25:23	मीन	शुक्र	मक	06:14:54	शनि
16/11/2024	19:41:54	धनु	शनि	धनु	28:38:17	04/10/2026
मंगल	10:35:57	कुंभ व	राहु व	मक	22:28:54	बुध
23/03/2025	10:35:57	सिंह व	केतु व	कर्क	22:28:54	09/01/2029
राहु	11:34:00	धनु	हर्ष	धनु	15:08:55	केतु
15/02/2026	18:36:08	धनु	नेप	धनु	20:19:51	16/12/2029
गुरु	21:01:51	तुला व	प्लूटो व	तुला	24:01:06	शुक्र
04/12/2026						16/08/2032
शनि						सूर्य
16/11/2027						04/06/2033
बुध						चन्द्र
22/09/2028						04/10/2034
केतु						मंगल
28/01/2029						10/09/2035
शुक्र						राहु
28/01/2030						03/02/2038

व - वकी स - स्थिर  
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त  
राहु : स्पष्ट


23:42:31 चित्रपक्षीय अयनांश 23:43:24



## अष्टकूट गुण सारिणी

कूट	वर	कन्या	अंक	प्राप्त	दोष	क्षेत्र
वर्ण	विप्र	वैश्य	1	1.00	--	जातीय कर्म
वश्य	कीटक	चतुष्पाद	2	1.00	--	स्वभाव
तारा	साधक	प्रत्यारि	3	1.50	--	भाग्य
योनि	मृग	सर्प	4	2.00	--	यौन विचार
मैत्री	मंगल	शुक्र	5	3.00	--	आपसी सम्बन्ध
गण	राक्षस	मनुष्य	6	0.00	हाँ	सामाजिकता
भकूट	वृश्चिक	वृष	7	7.00	--	जीवन शैली
नाडी	आद्य	अन्त्य	8	8.00	--	स्वास्थ्य/संतान
<b>कुल :</b>			<b>36</b>	<b>23.50</b>		

कुल : 23.5 / 36



## अष्टकूट मिलान

गणदोष कष्टदायक है क्योंकि दोनों के राशि स्वामियों में मित्रता नहीं है।  
Abinav का वर्ग मृग है तथा Sahivani का वर्ग मृग है। इन दोनों वर्गों में परस्पर सम है।

अष्टकूट मिलान के अनुसार Abinav और Sahivani का मिलान शुभ है।

### मंगलीक दोष मिलान

Abinav मंगलीक है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में सप्तम भाव में स्थित है।

**अजे लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके स्थिते ।  
वृषे जाये घटे रन्ध्रे भौम दोषो न विद्यते ॥**

अर्थात् मेष राशि लग्न में, द्वादश में धनुराशि, चतुर्थ में वृश्चिक राशि, सप्तम में वृष राशि तथा अष्टम में कुम्भ राशि में मंगल स्थित हो तो मंगल दोष नहीं होता है। क्योंकि मंगल Abinav कि कुण्डली में सप्तम भाव में वृष राशि में स्थित है अतः मंगलीक दोष प्रभावहीन हो जाता है।

**कुजजीवो समायुक्तो युक्तो व कुजचन्द्रमा ।  
न मंगली मंगल राहु योग ।**

यदि मंगल-गुरु या मंगल-राहु या मंगल-चंद्र एक राशि में हों तो मंगली दोष भंग हो जाता है।

क्योंकि मंगल एवं गुरु Abinav कि कुण्डली में एक राशि में हैं अतः मंगलीक दोष प्रभावहीन हो जाता है।

Sahivani मंगलीक है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में चतुर्थ भाव में स्थित है।

**तनुधनुमदमायुर्लाभ व्ययगः कुजस्तु दाम्पत्यम् ।  
विघटयति तद् गृहेशो न विघटयति तुंगमित्रगेहेवा ॥**

यदि मंगल स्व राशि अथवा उच्च का हो तो मंगली दोष भंग हो जाता है।

क्योंकि मंगल Sahivani कि कुण्डली में उच्च का है अतः मंगलीक दोष प्रभावहीन हो जाता है।

**कुजजीवो समायुक्तो युक्तो व कुजचन्द्रमा ।  
न मंगली मंगल राहु योग ।**

यदि मंगल-गुरु या मंगल-राहु या मंगल-चंद्र एक राशि में हों तो मंगली दोष भंग हो जाता है।

क्योंकि मंगल एवं राहु Sahivani कि कुण्डली में एक राशि में हैं अतः मंगलीक दोष प्रभावहीन हो जाता है।

**त्रिषट् एकादशे राहु त्रिषट् एकादशे शनिः ।  
त्रिषट् एकादशे भौमः सर्वदोषविनाशकृत् ।।**

वर या कन्या की कुंडली में से एक मंगलीक हो और दूसरे की कुंडली में 3,6,11 वें भावों में राहु, मंगल या शनि हो तो मंगलीक दोष समाप्त हो जाता है।

क्योंकि शनि Sahivani कि कुण्डली में तृतीय भाव में स्थित है अतः मंगलीक दोष कट जाता है।

**शनिभौमोऽथवा कश्चित् पापो वा तादृशो भवेत् ।  
तेष्वेव भवनेष्वेव भौमदोषविनाशकृत् ।।**

यदि एक की कुंडली में जहां मंगल हो उन्हीं स्थानों पर दूसरे की कुंडली में प्रबल पाप ग्रह (राहु या शनि) हों तो मंगलीक दोष कट जाता है।

क्योंकि राहु Abinav कि कुण्डली में चतुर्थ भाव में स्थित है अतः मंगलीक दोष कट जाता है।

Abinav तथा Sahivani में मंगलीक मिलान ठीक है।

### **निष्कर्ष**

अष्टकूट एवं मंगलीक दोष न होने के कारण दोनों का मिलान उत्तम है।

## अष्टकूट फलादेश

### वर्ण

Abinav का वर्ण ब्राह्मण तथा Sahivani का वर्ण वैश्य है। अतः यह मिलान अति उत्तम है। Sahivani सदैव अपने पति तथा घर में बड़ों का सम्मान करेगी तथा उनकी आज्ञा का पालन करती रहेंगी। Sahivani मितव्ययी होंगी तथा बचत करके पैसे को लाभदायक उपादानों में निवेश करती रहेंगी।

### वश्य

Abinav का वश्य कीट है एवं Sahivani का वश्य चतुष्पद है। जिसके कारण यह मिलान औसत मिलान है। चतुष्पद एवं कीट दो भिन्न प्राणी हैं। किंतु दोनों का प्रकृति में सह-अस्तित्व है। दोनों के स्वभाव, गुण, पसंद/नापसंद अलग होते हुए भी दोनों एक-दूसरे के लिए घातक नहीं होंगे। इसी प्रकार, Abinav चतुष्पद अर्थात् पशु एवं Sahivani कीट वश्य की होने के कारण दोनों के स्वभाव, व्यवहार, गुण, पसंद/नापसंद में अंतर होते हुए भी दोनों के बीच वैवाहिक संबंध सामान्य ही रहने की प्रबल संभावना है। दोनों का स्वभाव गंभीर एवं संकोची रहेगा तथा दोनों सौहार्दता एवं प्रेम से अपना जीवन यापन करते रहेंगे साथ ही अपने-अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

### तारा

Abinav की तारा साधक तथा Sahivani की तारा प्रत्यरि है। Sahivani की तारा प्रत्यरि होने के कारण यह मिलान औसत मिलान ही है। संभाव है कि यह विवाह Abinav एवं उसके परिवार के लिए हानिकारक साबित हो। Sahivani का स्वभाव बिल्कुल लापरवाह, स्वार्थी एवं असहयोग की भावना वाली हो सकती है तथा भविष्य में अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में ही लगी रह सकती है। साथ ही Sahivani के अवैध संबंध तक भी हो सकते हैं जिसके फलस्वरूप पति, बच्चों एवं संपूर्ण परिवार को काफी कष्ट एवं पीड़ा का सामना कर पड़ सकता है। Abinav अत्यधिक आध्यात्मिक हो सकता है तथा अपना अधिकांश समय आध्यात्मिक गतिविधियों में ही व्यतीत करता रहेगा।

### योनि

Abinav की योनि मृग है तथा Sahivani की योनि सर्प है। अर्थात् दोनों की योनि समान नहीं हैं और इनके बीच उदासीनता का अर्थात् सम संबंध है। अतः यह मिलान औसत मिलान कहलायेगा। जिसके कारण दोनों के बीच आपसी समझबूझ का अभाव रहेगा तथा जीवन में सहयोग की भावना एवं प्रेम का अभाव भी बना रहेगा। दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होंगे तथा परिवार में तनाव तथा अशांति का भाव भी रह सकता है। साथ ही दोनों के बीच अविश्वास की भावना भी बनी रहेगी। दोनों एक दूसरे को संदेह की भावना से देखेंगे जिससे दोनों के बीच कटुता का भाव भी पैदा होगा। दोनों के बीच आपसी समझ की कमी भी रहेगी अतः दोनों के बीच वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। संभव है कि दोनों के बीच अवैध संबंध को

लेकर संदेह की भावना बन जाये जिसके कारण पारिवारिक तनाव भी हो सकता है। बात-बात में दोनों के बीच में कभी कभी तर्क-वितर्क की जगह कुतर्क भी हो सकता है। वर या कन्या में से कोई भी विश्वासघात भी कर सकता है। जिसके कारण दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इनको अपने जीवन में अत्याधिक संघर्ष के उपरांत ही सफलता प्राप्त होगी अतः कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बावजूद इनको अपने जीवन में सफलता कम ही मिलेगी। अर्थात् मेहनत अधिक और परिणाम कम ही मिलने की संभावना है। जिसके कारण दोनों को समय-समय पर मानसिक पीड़ा होती रहेगी। पारिवारिक आय औसत ही रहेगी। अर्थात् धनागम के स्रोत कम ही रहेंगे। पति-पत्नी के बीच विचारों में भिन्नता होगी एवं जीवन में उतार-चढ़ाव बने रहेंगे। दोनों लापरवाह प्रवृत्ति के होंगे किंतु परिवार के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। दोनों के बीच रोमांस एवं सेक्स में रुचि की कमी भी रह सकती है। कई बार वाद-विवाद में तर्क-वितर्क होते रहेंगे। जिसके कारण समय-समय पर धन हानि भी हो सकती है। आपस में प्रेम एवं सौहार्द की भी कमी रहेगी। इस प्रकार इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा न रहकर निम्न सामान्य स्तर का ही होगा।

### मैत्री

अष्टकूट मिलान में ग्रह मैत्री कूट में Abinav एवं Sahivani दोनों के राशि स्वामी परस्पर सम हैं। अतः यह मिलान ग्रह मैत्री के विचार से औसत मिलान है। ज्योतिष की दृष्टि से यह मिलान औसत माना जायेगा। इसके कारण जीवन एवं करियर में हमेशा उतार-चढ़ाव बने रहेंगे। दोनों के बीच प्रेम एवं सहयोग का माहौल रहेगा किंतु यदा-कदा आपस में ये लड़ाई-झगड़ा भी कर सकते हैं। हालांकि ये जल्दी ही अपने झगड़े को भुलाकर समझौता भी कर लेंगे तथा जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता पाने के लिए इनको अथक परिश्रम एवं उद्यम करना पड़ सकता है।

### गण


Abinav का गण राक्षस है तथा Sahivani का गण मनुष्य है। अर्थात् Sahivani का गण Abinav के गण से श्रेष्ठ है। अतः यह मिलान बहुत बुरा मिलान रहेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से यह संबंध अधिक दिनों तक नहीं रहने वाला होगा। दोनों के वैचारिक मतभेद परिवार के सदस्यों के जीवन को अशांत बना सकते हैं। ऐसा विवाह त्याज्य है।

### भकूट

Abinav एवं Sahivani की राशियां एक दूसरे से सम सप्तक (1/7) हैं। जिसके कारण इस मिलान को अति उत्तम मिलान माना जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से यह मिलान अति शुभ है तथा Abinav व Sahivani को शांति, सुख, सौभाग्य, समृद्धि, योग्य संतान एवं चतुर्दिक विकास के अवसरसमय-समय पर मिलते रहेंगे। साथ ही दोनों के बीच असीम प्यार बना रहेगा तथा दोनों हर कार्य में एक-दूसरे की मदद करते रहेंगे।

## नाड़ी

Abinav की नाड़ी आद्य है तथा Sahivani की नाड़ी अन्त्य है। अर्थात दोनों की नाड़ी समान नहीं है, जो कि अष्टकूट मिलान की दृष्टि से दोष मुक्त है। अर्थात यह मिलान अति उत्तम मिलान है। इस मिलान में शरीर के दो महत्वपूर्ण अवयवों वात एवं कफ का संतुलन होता है। Abinav की आद्य नाड़ी तथा Sahivani की अन्त्य नाड़ी अच्छे स्वास्थ्य, स्वस्थ एवं मजबूत शरीर, दम्पत्ति के आपसी प्रेम एवं समझदारी की द्योतक हैं। जिसके कारण आपकी संतान स्वस्थ, आज्ञाकारी एवं भाग्यशाली होंगी।



## मेलापक फलित

### स्वभाव

Abinav की जन्म राशि जलतत्व युक्त वृश्चिक तथा Sahivani की पृथ्वी तत्व युक्त वृष राशि है। जल एवं पृथ्वी तत्व में नैसर्गिक समता होने के कारण Abinav और Sahivani में स्वभावगत समानताएं होंगी जिससे दाम्पत्य संबंधों में प्रगाढ़ता होगी तथा वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। अतः मिलान अच्छा रहेगा।

Abinav की जन्म राशि का स्वामी मंगल तथा Sahivani की राशि का स्वामी शुक्र परस्पर समराशियों में स्थित है। अतः इसके प्रभाव से Abinav और Sahivani के आपसी संबंध अच्छे रहेंगे तथा परस्पर स्नेह सहयोग एवं सहानुभूति का भाव रहेगा। वे सुख दुख में एक दूसरे को अपनी ओर से पूर्ण सुख एवं सहयोग प्रदान करेंगे जिससे दाम्पत्य जीवन की मधुरता बनी रहेगी तथा पारिवारिक सुख शांति तथा समृद्धि में भी वृद्धि होगी।

Abinav तथा Sahivani की राशियां परस्पर सप्तम भाव में पड़ती हैं। शास्त्रानुसार यह शुभ भकूट माना जाता है। इसके प्रभाव से Abinav और Sahivani का दाम्पत्य जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होगा तथा परस्पर सम्मान पूर्वक समर्पण की भावना रहेगी तथा एक दूसरे के अस्तित्व को पूर्ण स्वीकार करते हुए सुख दुख में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। अतः Abinav और Sahivani का वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा।

Abinav का वश्य कीट एवं Sahivani का वश्य चतुष्पद है। कीट एवं चतुष्पद में समानता होने के कारण इनकी अभिरुचियों में समानता रहेगी तथा शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर आवश्यकताएं समान होंगी। अतः दाम्पत्य संबंधों में भी एक दूसरे को प्रसन्न तथा सन्तुष्ट करने में समर्थ होंगे।

Abinav का वर्ण ब्राह्मण तथा Sahivani का वर्ण वैश्य है। अतः Abinav क्षीणक शास्त्रीय तथा धार्मिक कार्य कलाओं में रुचि रखेंगे जबकि Sahivani धनार्जन संबंधी कार्यों में तत्पर रहेंगी। इससे कार्य क्षेत्र में सुदृढ़ता रहेगी तथा आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी।

### धन

Abinav और Sahivani दोनों की तारा परस्पर सम है। अतः आर्थिक स्थिति पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा तथा सामान्य गति से धन एवं लाभ अर्जित करने में दोनों तत्पर रहेंगे। भकूट भी सम ही रहेगा जिससे उनके लाभमार्ग स्वबुद्धिमता एवं परिश्रम से प्रशस्त रहेंगे। मंगल का भी उनकी आर्थिक स्थिति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार उनके अर्थिक स्तर पर कोई विशेष नाटकीय परिवर्तन की संभावना नहीं होगी परन्तु सामान्य जीवन धनऐश्वर्य से युक्त होकर व्यतीत होगा।

इसके साथ ही कोई विशेष या अचानक लाभ के योगों में भी न्यूनता होगी तथा आर्थिक स्तर अपने ही अनुकूल रहेगा जिससे वे आर्थिक रूप से सन्तुष्टि की अनुभूति करेंगे।

## स्वास्थ्य

Abinav आद्य तथा Sahivani अन्य नाड़ी में उत्पन्न हुई हैं। अतः अलग अलग नाड़ी होने के कारण नाड़ी दोष से ये मुक्त रहेंगे परन्तु मंगल के प्रभाव से दोनों को समय समय पर शारीरिक कष्ट की प्राप्ति होती रहेगी। इससे दोनों गुप्त रोग या धातु संबंधी रोगों से परेशान रहेंगे तथा हृदय संबंधी कोई कष्ट भी हो सकता है। Abinav की रतिक्रिया में शिथिलता रहेगी जबकि Sahivani की संभोग के प्रति उनके मन में उदासीनता का भाव रहेगा फलतः दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होगा। अतः इस प्रभाव की न्यूनता के लिए Abinav और Sahivani को नियमित रूप से हनुमानजी की उपासना तथा मंगलवार के उपवास करने चाहिए।

## संतान

संतति प्राप्ति की दृष्टि से Abinav और Sahivani का मिलान उत्तम रहेगा। इसके प्रभाव से उन्हें उचित समय पर संतति की प्राप्ति होगी तथा इसमें अनावश्यक विलम्ब भी नहीं होगा। साथ ही बच्चों के जन्म में भी सामान्य अंतर रहेगा जिससे उनका पालन पोषण उचित ढंग से करने में आसानी रहेगी। इसके अतिरिक्त Abinav और Sahivani के पुत्र एवं कन्या संतति की संख्या समान होगी।

प्रसव के विषय में Sahivani के मन में पहले से ही अनावश्यक भय की अनुभूति रहेगी लेकिन Sahivani को इस विषय में किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए तथा सामान्य रूप से गर्भावस्था का समय व्यतीत करना चाहिए। प्रसव काल में Sahivani को प्रसूति या अन्य किसी भी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा सुंदर स्वस्थ एवं आकर्षक बच्चों को जन्म देने में सफल होंगी। साथ ही स्वयं भी स्वस्थ एवं प्रसन्नता की अनुभूति करेंगी।

संतति पक्ष से Abinav और Sahivani सन्तुष्ट तथा प्रसन्न रहेंगे तथा बच्चे अपने क्षेत्र में अपनी बुद्धिमता तथा योग्यता से उन्नतिमार्ग पर अग्रसर होंगे। साथ ही व्यवहार कुशलता का गुण भी उनमें विद्यमान रहेगा। माता पिता के प्रति उनका पूर्ण आदर तथा आज्ञापालन का भाव रहेगा तथा उनकी इच्छा के विरुद्ध वे कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं करेंगे। इस प्रकार Abinav और Sahivani का पारिवारिक जीवन सुख शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा।

## ससुराल-सुश्री

Sahivani के अपनी सास के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी तथा इनके मध्य परस्पर सामंजस्य भी रहेगा। साथ ही सास से Sahivani को कभी भी कोई परेशानी या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। Sahivani भी उनकी सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान रखेंगी तथा सेवा करने में सर्वदा तत्पर रहेंगी।

ससुर पक्ष से Sahivani को यदा कदा अनावश्यक समस्याओं तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा एवं वे सन्तुष्ट तथा प्रसन्न अल्प मात्रा में ही रहेंगे। तथापि उनका हृदय जीतने के लिए Sahivani उनकी सेवा तथा सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान रखेंगी एवं परस्पर

सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी तत्पर रहेंगी। साथ ही देवर एवं ननदों से भी Sahivani के मधुर संबध नहीं रहेंगे तथा परस्पर स्नेह एवं सहयोग के भाव की भी न्यूनता रहेगी। इसके अतिरिक्त परस्पर प्रतिद्वन्दिता तथा आलोचना का भाव रहेगा।

सामान्य रूप से सास ससुर का Sahivani के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण रहेगा तथा परिवार में उसकी महता को स्वीकार करेंगे।

### ससुराल-श्री

Abinav के अपनी सास से मधुर संबध रहेंगे तथा आपसी सामंजस्य से इसमें निरन्तर वृद्धि होती रहेगी। सास को Abinav अपनी माता के समान आदर प्रदान करेंगे तथा उनकी सेवा तथा सुख सुविधा का भी ध्यान रखेंगे। साथ ही समय समय पर सपत्नीक उनके यहां मिलने जाया करेंगे जिससे संबधों की प्रगाढ़ता में वृद्धि होगी।

ससुर के साथ भी Abinav के संबधों में मधुरता रहेगी। साथ ही उन का भी इनके प्रति विशेष वात्सल्य रहेगा। व्यक्तिगत मामलों तथा आपसी संबधों में मित्रता का भाव भी दृष्टिगोचर होगा जिससे एक दूसरे की बातों का आदान प्रदान होता रहेगा। साथ ही साली एवं सालों से भी संबधों में मित्रता सहानुभूति तथा सहयोग का भाव रहेगा तथा एक दूसरे से औपचारिक संबध रहेंगे।

इस प्रकार ससुराल के लोगों का दृष्टिकोण Abinav के प्रति सम्मानीय रहेगा तथा वे उनके व्यवहार से प्रसन्न तथा सन्तुष्ट रहेंगे।